



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 4 सितम्बर, 2020

भाद्रपद 13, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-5

संख्या 754/एक-5-2020-48-2019

लखनऊ, 4 सितम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-219

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 6 उपधारा (1) और (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और इस निमित्त पूर्व में जारी की गयी सरकारी अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके, राज्यपाल, जिला सोनभद्र में एक नई तहसील सृजित करती हैं, जो तहसील ओबरा के नाम से जानी जायेगी, जिसका मुख्यालय बिल्ली मारकुण्डी में होगा, जिसमें नीचे अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट ग्राम समाविष्ट होंगे और निम्नलिखित की सीमाओं में परिवर्तन करते हैं :-

(क) अनुसूची-2 में उल्लिखित 105 राजस्व ग्रामों को अपवर्जित करके जिला सोनभद्र की तहसील राबर्ट्सगंज,

(ख) अनुसूची-3 में उल्लिखित 10 राजस्व ग्रामों को अपवर्जित करके जिला सोनभद्र की तहसील घोरावल,

राज्यपाल अग्रतर निर्देश देती हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव किसी विधि न्यायालय में, जिसने अब तक उक्त क्षेत्रों के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग किया गया है, पहले ही प्रारम्भ की गयी या विचाराधीन किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

अनुसूची-1

तहसील राबर्ट्सगंज तथा घोरावल में अपवर्जित किये गये और नवसृजित तहसील ओबरा में सम्मिलित किये गये ग्रामों की सूची:-

तहसील ओबरा के ग्रामों के नाम							
क्र०सं०	ग्रामों के नाम	क्र०सं०	ग्रामों के नाम	क्र०सं०	ग्रामों के नाम	क्र०सं०	ग्रामों के नाम
1	चोपन	30	मीतापुर	59	खेमपुर	88	अदलगंज
2	बर्दीया	31	भभाईच	60	झरिया	89	रोरवा
3	सेन्दुरिया	32	चिरहुली	61	महिउद्दीनपुर	90	नौडिहा
4	भगवा	33	बघनार	62	देवाटन	91	ससनई
5	महलपुर	34	बेलदहा	63	कोन	92	बरहमोरी
6	टापू	35	करकी	64	रगरम	93	चकरिया
7	गायघाट	36	बघनारी	65	शिवपुर	94	झरिया
8	घटिहटा	37	कुरहुल	66	डोमा	95	अड़गुण
9	गोठानी	38	रेड़िया	67	किशुनचक	96	सरसा
10	खेवन्धा	39	कनछ	68	बरवाखाड़	97	चननी
11	चन्दौली	40	कन्हौरा	69	रजखड़	98	गड़ाव
12	अगोरी खास	41	पकरी	70	सेमरखड़	99	कुम्हरवार
13	बिजौरा	42	बेलछ	71	लोहवे	100	गुडुर
14	गोसारी	43	रूदौली	72	मिश्री	101	भीतरी
15	खरहरा	44	करईल	73	बहुअरा	102	पिण्डारी
16	बड़गवां	45	किसुनपुरवा	74	खेतकटवा	103	रानीडीह
17	अलउर	46	चेरवाडीह	75	कुड़वा	104	महुना
18	गुरदह	47	घघीया	76	नरहटी	105	बसुहारी
19	भरहरी	48	बगीया	77	मझिगवां	106	सेमिया
20	जुगैल	49	केरवा	78	चांचीकला	107	चतरवार
21	बिल्ली मारकुण्डी	50	मिटिहिनिया	79	नकतवार	108	घोरिया
22	परसोई	51	खरौधी	80	असनाबांध	109	कुडारी
23	पनारी	52	गिधिया	81	चांचीखुर्द	110	नेवारी
24	कनहरा	53	पिपरखाड़	82	बागेसोती	111	महम
25	बैरपुर	54	कचनरवा	83	डूमर	112	भरगोन
26	नदेहरा	55	पदरछ	84	हर्रा	113	मदाईन
27	नदेहरी	56	गायघाट	85	निगाई	114	जमुअल
28	करगरा	57	रामगढ़	86	कोटा	115	कुरछा
29	बन्धवा	58	बरवाडीह	87	पटवध		

अनुसूची-2

तहसील राबर्टसगंज के राजस्व ग्रामों के नाम							
क्र०सं०	ग्रामों के नाम	क्र०सं०	ग्रामों के नाम	क्र०सं०	ग्रामों के नाम	क्र०सं०	ग्रामों के नाम
1	चोपन	28	करगरा	55	पदरछ	82	बागोसोती
2	बर्दीया	29	बन्धवा	56	गायघाट	83	डूमर
3	सुन्दुरिया	30	मीतापुर	57	रामगढ़	84	हर्रा
4	भगवा	31	भभाईच	58	बरवाडीह	85	निगाई
5	महलपुर	32	चिरहुली	59	खेमपुर	86	कोटा
6	टापू	33	बघनार	60	झरिया	87	पटवध
7	गायघाट	34	बेलदहा	61	महिउद्दीनपुर	88	अदलगंज
8	घटिहटा	35	करकी	62	देवाटन	89	रोरवा
9	गोठानी	36	बघनारी	63	कोन	90	नौडिहा
10	खेवन्धा	37	कुरहुल	64	रगरम	91	ससनई
11	चन्दौली	38	रेडिया	65	शिवपुर	92	बरहमोरी
12	अगोरी खास	39	कनछ	66	डोमा	93	चकरिया
13	बिजौरा	40	कन्हौरा	67	किशुनचक	94	झरिया
14	गोसारी	41	पकरी	68	बरवाखाड़	95	अड़गुण
15	खरहरा	42	बेलछ	69	रजखड़	96	सरसा
16	बडगवां	43	रूदौली	70	सेमरखड़	97	चननी
17	अलउर	44	करईल	71	लोहवे	98	गड़ाव
18	गुरदह	45	किसुनपुरवा	72	मिश्री	99	कुम्हरवार
19	भरहरी	46	चेरवाडीह	73	बहुअरा	100	गुडुर
20	जुगैल	47	घधीया	74	खेतकटवा	101	भीतरी
21	बिल्ली मारकुण्डी	48	बगीया	75	कुड़वा	102	पिण्डारी
22	परसोई	49	केरवा	76	नरहटी	103	रानीडीह
23	पनारी	50	मिटिहिनिया	77	मझिगवां	104	महुना
24	कनहरा	51	खरौधी	78	चांचीकला	105	बसुहारी
25	बैरपुर	52	गिधिया	79	नकतवार		
26	नदेहरा	53	पिपरखाड़	80	असनाबांध		
27	नदेहरी	54	कचनरवा	81	चांचीखुर्द		

अनुसूची-3

तहसील घोरावल के राजस्व ग्रामों के नाम			
क्र०सं०	ग्रामों के नाम	क्र०सं०	ग्रामों के नाम
1	सेमिया	6	महम
2	चतरवार	7	भरगोन
3	घोरिया	8	मदाईन
4	कुडारी	9	जमुअल
5	नेवारी	10	कुरछा

आज्ञा से,
रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 754/1-5-2020-48-2019, dated September 4, 2020 for general information :

No. 754/1-5-2020-48-2019

Dated Lucknow, September 4, 2020

IN exercise of the powers under sub-section (1) and (2) of section 6 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U. P. Act no. VIII of 2012) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) and in partial modification of Government notifications issued earlier in this behalf, the Governor is pleased to create a new tehsil to be known as tehsil Obra in district Sonbhadra with its Headquarters at Billi Markundi comprising the villages specified in the Schedule-1 below and to alter the limits of :-

(a) tehsil Robertsganj district Sonbhadra by excluding 105 revenue villages mentioned in Schedule-2;

(b) tehsil Ghorawal district Sonbhadra by excluding 10 revenue villages mentioned in Schedule-3;

The Governor is further pleased to direct that nothing in this notification shall affect any legal proceeding already commenced or pending in any Court of law which has hitherto exercised jurisdiction in respect of the said areas.

SCHEDULE-1

List of villages excluded from tehsil Robertsganj and Ghorawal and included in the newly created tehsil Obra:-

Name of villages of tehsil Obra							
Sl. no.	Name of village	Sl. no.	Name of village	Sl. no.	Name of village	Sl. no.	Name of village
1	Chopan	30	Mitapur	59	Khempur	88	Adalganj
2	Bardia	31	Bhabhaich	60	Jhariya	89	Rorva
3	Senduriya	32	Chirhuli	61	Mahiuddinpur	90	Naudiha
4	Bhagva	33	Baghanar	62	Devatan	91	Sasanai
5	Mahalpur	34	Beldaha	63	Kon	92	Barhmori
6	Tapu	35	Karaki	64	Ragaram	93	Chakaria
7	Gaighat	36	Baghanari	65	Shivpur	94	Jharia
8	Ghatihata	37	Kurul	66	Doma	95	Adgun
9	Gothani	38	Redia	67	kishunchak	96	Sarsa
10	Khewandha	39	Kanachh	68	Barwakhad	97	Chanani
11	Chandauli	40	Kanahaura	69	Rajkhad	98	Gadavn
12	Agori Khas	41	Pakari	70	Semarkhad	99	Kumharvar
13	Bijaura	42	Belchh	71	Lohave	100	Gudur
14	Gosari	43	Rudauli	72	Mishari	101	Bhitari
15	Kharahra	44	Karail	73	Bahuara	102	Pindari
16	Badgawan	45	Kisunpurwa	74	Khetkatva	103	Ranidih
17	Alaur	46	Cherwadih	75	Kudawa	104	Mahuna
18	Gurdah	47	Ghaghiya	76	Narhati	105	Basuhari
19	Bharahari	48	Bagiya	77	Majhigawan	106	Semiya
20	Jugail	49	Kerava	78	Chanchikalan	107	Chatarwar
21	Billi Markundi	50	Mitihinya	79	Nakatwar	108	Ghoriya
22	Parsoi	51	Kharaundhi	80	Asanabandh	109	Kudari
23	Panaari	52	Gidhiya	81	Chanchikhurd	110	Newari
24	Kanhara	53	Piparkhad	82	Bagesoti	111	Maham
25	Bairpur	54	Kachanarva	83	Doomar	112	Bhargon
26	Nadehra	55	Padrachh	84	Harra	113	Madain
27	Nadehari	56	Gaighat	85	Nigai	114	Jamual
28	Kargara	57	Ramgarh	86	Kota	115	Kurchha
29	Bandhwa	58	Barwadih	87	Patawadh		

SCHEDULE-2

Name of Revenue villages of tehsil Robertsganj							
Sl. no.	Name of village	Sl. no.	Name of village	Sl. no.	Name of village	Sl. no.	Name of village
1	Chopan	29	Bandhwa	57	Ramgarh	85	Nigai
2	Bardia	30	Mitapur	58	Barwadih	86	Kota
3	Senduriya	31	Bhabhaich	59	Khempur	87	Patawadh
4	Bhagva	32	Chirhuli	60	Jhariya	88	Adalganj
5	Mahalpur	33	Baghanar	61	Mahiuddinpur	89	Rorva
6	Tapu	34	Beldaha	62	Devatan	90	Naudiha
7	Gaighat	35	Karaki	63	Kon	91	sasanai
8	Gaighata	36	Baghanari	64	Ragaram	92	Barhmori
9	Gothani	37	Kurul	65	Shivpur	93	Chakaria
10	Khewandha	38	Redia	66	Doma	94	Jharia
11	Chandauli	39	Kanachh	67	kishunchak	95	Adgun
12	Agori khas	40	Kanahaura	68	Barwakhad	96	Sarsa
13	Bijaura	41	Pakari	69	Rajkhad	97	Chanani
14	Gosari	42	Belchh	70	Semarkhad	98	Gadavn
15	Kharahra	43	Rudauli	71	Lohave	99	Kumharvar
16	Badgawan	44	Karail	72	Mishari	100	Gudur
17	Alaur	45	Kisunpurwa	73	Bahuara	101	Bhitari
18	Gurdah	46	Cherwadih	74	Khetkatva	102	Pindari
19	Bharahari	47	Ghaghiya	75	Kudawa	103	Ranidih
20	Jugail	48	Bagiya	76	Narhati	104	Mahuna
21	Billi Markundi	49	Kerava	77	Majhigawan	105	Basuhari
22	Parsoi	50	Mitihinya	78	Chanchikalan		
23	Panaari	51	Kharaundhi	79	Nakatwar		
24	Kanhara	52	Gidhiya	80	Asanabandh		
25	Bairpur	53	Piparkhad	81	Chanchikhurd		
26	Nadehra	54	Kachanarva	82	Bagesoti		
27	Nadehari	55	Padrachh	83	Doomar		
28	Kargara	56	Gaighat	84	Harra		

SCHEDULE-3

Name of Revenue villages of tehsil Ghorawal			
Sl. no.	Name of village	Sl. no.	Name of village
1	Semiya	6	Maham
2	Chatarwar	7	Bhargon
3	Ghoriya	8	Madain
4	Kudari	9	Jamual
5	Newari	10	Kurchha

By order,
 RENUKA KUMAR,
 Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 223 राजपत्र-2020-(611)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 4 सा० राजस्व-2020-(612)-580 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।